



रामाज्ञा स्कूल, नॉएडा

हिंदी ओलम्पियाड- कार्यपत्रिका (2017-18)

कक्षा-10

पूर्णांक-20

विश्व में वायु-प्रदूषण के मामले में तीसरा स्थान रखने वाले दिल्ली शहर में सर्वाधिक दुपहिया वाहन चलते हैं। सड़कों पर स्कूटर, थ्री-व्हीलर, बसें, ट्रक व कारों का रेला जो विषैला धुआँ उगलता है, उससे आँखों में जलन व गले में खराश पैदा होने लगती है। वायु-प्रदूषण का खतरनाक स्तर निश्चित रूप से इंसानी स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी है।

उक्त अवतरण के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें।

(1) ध्वनि-प्रदूषण के प्रमुख कारणों में उल्लेखनीय है -

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| (क) दूर संचार संसाधन | (ग) जल प्रदाय संसाधन |
| (ख) विद्युत संसाधन | (घ) यातायात के संसाधन |

(2) वायु प्रदूषण का खतरनाक स्तर किसके लिए खतरे की घंटी है।

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| (क) मनुष्य के विचार | (ग) मनुष्य के स्वास्थ्य |
| (ख) शहरीकरण | (घ) रोजगार |

(3) विश्व में सर्वाधिक दुपहिया वाहन किस शहर में चलते हैं।

- | | |
|------------|-------------|
| (क) मुंबई | (ग) कोलकाता |
| (ख) चेन्नई | (घ) दिल्ली |

(3) निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें।

घोडा वायु की गति से तेज दौड़ता है।

- (क) पावक
(ख) नयन
(ग) शेर
(घ) अश्व

(4) निर्देशानुसार सही विकल्प का चयन कीजिए।

- (क) 'विधवा' का पुल्लिंग शब्द है।
(ख) जिसका पिता न हो

- (ग) विधुर
(घ) दास
- (5) 'समाट' का स्त्रीलिंग शब्द है ।
(क) रानी (ग) सम्राज्ञी
(ख) दासी (घ) राजकुमारी
- (6) कीचड़ में कमल खिलते हैं ।
(क) पंकज (ग) नीरज
(ख) सावन (घ) गगन
- (7) 'निम्न+ अंकित' की संधि है ।
(क) निम्नांकित (ग) निम्नंकित
(ख) निम्नअंकित (घ) निम्अंकित
- (8) 'बहुत घमंड होना' का मुहावरा है ।
(क) जमीन पर गिरना (ग) जमीन पर रहना
(ख) जमीन पर पैर न टिकना (घ) जमीन पर टिकना
- (9) 'परीक्षा + अर्थी' की संधि है ।
(क) परीक्षार्थी (ग) परीक्षर्थी
(ख) परीक्षोर्थी (घ) परिक्षर्थी
- (10) 'चार दिन की चाँदनी फिर अँधेरी रात' लोकोक्ति है या मुहावरा या कुछ अन्य ?
(क) लोकोक्ति (ग) मुहावरा
(ख) समास (घ) संधि
- (11) 'पुस्तक' क्या है ?
(क) शब्द (ग) पद
(ख) पद-परिचय (घ) पदबंध
- (12) वाक्य के कितने प्रकार हैं ?
(क) दो (ग) तीन
(ख) चार (घ) पांच
- (13) 'वंदे मातरम्' का क्या अर्थ है ?
(क) माता की जय (ग) पिता की जय

(ख) सभी को वंदन

(घ) भारत माता की जय

(14) 'निर्मल निर्झर' में प्रयुक्त अलंकार है ।

(क) अनुप्रास

(ग) यमक

(ख) श्लेष

(घ) अतिशयोक्ति

(15) शुद्ध वाक्य है ।

(क) लड़कियाँ द्वार खोला ।

(ग) लड़कियां द्वार खोली ।

(ख) लड़कियों द्वार खोला ।

(घ) लड़कियों ने द्वार खोला ।

(16) 'व्यथा दूर करना' का अर्थ है ।

(क) दुख दूर करना

(ग) दुख की अनुभूति

(ख) दुख को बढ़ाना

(घ) दुख का सागर

(17) 'संधि' शब्द का अर्थ है ।

(क) अलग करना

(ग) तोड़ना

(ख) मेल या मिलाना

(घ) बिखेरना

(18) संक्षिप्त करने की विधि को कहते हैं ।

(क) वाक्य

(ग) संधि

(ख) समास

(घ) वाक्यांश

(19) प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह कहलाता है ।

(क) शब्द

(ग) वाक्य

(ख) पद

(घ) इकाई

(20) वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द बन जाता है ।

(क) समास

(ग) संधि

(ख) तत्सम्

(घ) पद

